लेखा अनुभाग कुलसचिव कार्यालय, जामिइ

कर्मचारी आई डी			सेवा पंजी सं	
·	छुट्टी यात्रा रियायत हेतु अग्रिम भुग	तान संबंधी आवेदन पत्र		
	APPLICATION FORM FOR GRAN	NT OF LTC ADVANCE		

1.	कार्मिक का नाम/NAME OF THE GOVERNMENT SERVANT	
2.	पदनाम/DESIGNATION	
3.	जामिया में सेवा ग्रहण करने की तारीख DATE OF ENTERING THE JAMIA SERVICE	
4.	वर्तमान वेतन + ग्रेड वेतन/ PRESENT PAY + GRADE PAY	
5.	स्थायी अथवा अस्थायी/WHETHER PERMANENT OR TEMPORARY	
6.	सेवा पुस्तिका में दर्ज गृह नगर/номе тоwn AS RECORDED IN THE SERVICE BOOK	
7.	क्या पत्नी/पति सेवारत है यदि हाँ तो कार्यालय का पता/ WHETHER WIFE/HUSBAND IS EMPLOYED AND IF SO Address. of the Office	
	क्या वर्तमान ब्लॉक वर्ष के लिए जामिया के अलावा एलटीसी रियायत का	भारत में एलटीसी स्विधा का लाभ लेने
	उपयोग किया है ? /WHETHER THE CONCESSION IS TO BE AVAILED FOR	/नहीं लेने के संबंध में कृपया उनके
	VISITING in current BLOCK year Other than Jamia	नियोक्ता से प्रमाणपत्र संलग्न करें
		/Please attach certificate from his/her employer regarding availing /not availing H.T/ Anywhere in India LTC facility
8	यदि रियायत सुविधा का उपयोग " गृह नगर/ भारत में किसी भी स्थान" के लिए	
	प्रयोग किया जा रहा है तो उस स्थान का नाम/ IF THE CONCESSION IS TO	
	VISITS " Home Town/ ANY WHERE IN INDIA" THE PLACE TO BE VISITED.	
9.	निकटतम रेलवे स्टेशन / हवाई अड्डा/Nearest Railway Station/Airport	
10.	किस ब्लॉक वर्ष के लिए लिया जा रहा है /BLOCK FOR WHICH TO BE	
	AVAILED.	
11.	ए) एक्ल रेल किराया/बस किराया: मुख्यालय से गृह नगर/सबसे छोटे मार्ग से	
	यात्रा के स्थान तक।	
	बी) हकदार वर्ग:	
	सी) किलोमीटर में दूरी	

12. उन व्यक्तियों के नाम जिनके द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग किया जाना है। / PERSONS IN RESPECT OF WHOM

	TO 10 I NOI GOLD TO BL AV	WEED.			
क्र.सं./	नाम तथा आयु/NAME AND	जन्मतिथि/Date	आयु/ Age	कार्मिक से	टिकट संख्या/ No.
SL.NO.	AGE	of Birth		संबंध/RELATIONSHIP	of Tickets

नोट: एलटीसी पर हवाई यात्रा के सभी मामलों में:/ Note: In all cases of air journey on LTC:

- 1. केवल एयर इंडिया से यात्रा करें।/Travel by Air India only.
- 2. सभी हवाई टिकट इकोनॉमी क्लास के खरीदे जाने चाहिए।/All air tickets should be purchased of economy class.
- 3. सभी टिकट सीधे एयर लाइन्स (बुकिंग काउंटर/एयरलाइंस की वेबसाइट पर) से या का उपयोग करके खरीदे जाने हैं अधिकृत ट्रैवल एजेंटों की सेवाएं यानी मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी, मेसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स केवल और आईआरसीटीसी (विस्तार करने के लिए आईआरसीटीसी डीओपी एंड टी ओ एंड एम नंबर 31011/6/2002-स्था। (ए) दिनांक 02.12.2009 के अनुसार अधिकृत है)।/ All tickets are to be purchased directly from Air lines (at Booking counters/Website of Airlines)or by utilizing theservices of authorized Travel Agents i.e. M/s Balmer Lawrie & Company, M/s Ashok Travels & tours only andIRCTC (to be extend IRCTC is authorized as per DoP & T O&M No. 31011/6/2002-Estt.(A) dt. 02.12.2009).
- 4. निजी एजेंटों से खरीदे गए टिकटों पर विचार नहीं किया जाएगा।/ Tickets purchased from private agents shall not be entertained.

14. अपेक्षित अग्रिम राशि:/ Amount of advance required :
The strate strate strate strategies and strategies
मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि (1) मैंने जामिया के अलावा किसी अन्य ब्लॉक वर्ष के लिए एलटीसी का दावा नहीं किया है जिसके
लिए मैं यह आवेदन जमा कर रहा हूं।/ I hereby declare that (1) I have not claimed any LTC for the block year other than Jamia for
which I am submitting this application.
2. मैं वचन देता हूं कि मैं बाहरी यात्रा के लिए टिकट प्राप्त होने के 10 (दस) दिनों के भीतर प्रस्तुत करूंगा/करूंगी अग्रिम, सत्यापन के
लिए।/ I undertake to produce the tickets for the outward journey, within 10(ten) days from the receipt of the
advance, for verification.
3. यात्रा रद्द होने की स्थिति में या यदि मैं यात्रा के दस (10) दिनों के भीतर टिकट प्रस्तुत करने में विफल रहता हूँ अग्रिम की प्राप्ति,
मैं एकमुश्त अग्रिम की पूरी राशि वापस करने का वचन देता हूं।/ In the event of the cancellation of the journey or if I fail to produce
the tickets within ten(10) days of the receipt of advance, I undertake to refund the entire amount of advance in one lump sum. 4. मैं एतद्वारा वचन देता हूं कि यदि मैं एलटीसी अग्रिम का समायोजन बिल 30 दिनों के भीतर जमा करने में विफल रहता हूं वापसी
यात्रा के पूरा होने पर, एलटीसी अग्रिम की राशि उस पर अर्जित ब्याज सहितमेरे वेतन से एकम्१रत वसूली की जाए।/ । hereby
undertake that in case, I fail to submit the adjustment bill of LTC advance within 30 days after the completion of return journey, the
amount of LTC advance including the accrued interest thereon maybe recovered in lump sum from my salary.
ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है।/ The particulars furnished above are true and correct to the
best of my knowledge.
मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं।/ I hereby declare that above particulars are true
to the best of my knowledge
हस्ताक्षर/Signature
पूरा नाम / FullName पद/ Designation
विभाग/ Department
तारीख/ Date
11 (14) Balo
विभाग / संस्थान के प्रमुख/ Head of the Deptt./Instt.
तारीख/ Date
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें:
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2. जहां कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, यदि प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाता है तो एलटीसी दावा जब्त हो जाएगा वापसी यात्रा
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2. जहां कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, यदि प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाता है तो एलटीसी दावा जब्त हो जाएगा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर। PLEASE NOTE DOWN THE FOLLOWING RULES IN R/O LTC FACILITY:
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2. जहां कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, यदि प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाता है तो एलटीसी दावा जब्त हो जाएगा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर। PLEASE NOTE DOWN THE FOLLOWING RULES IN R/O LTC FACILITY: 1. Normally, the advance should be refunded in full if the outward journey is not commenced within 30
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2. जहां कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, यदि प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाता है तो एलटीसी दावा जब्त हो जाएगा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर। PLEASE NOTE DOWN THE FOLLOWING RULES IN R/O LTC FACILITY: 1. Normally, the advance should be refunded in full if the outward journey is not commenced within 30 days of the grant of advance. Air/ railway/bus tickets should be submitted within 10days of the drawl of
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2. जहां कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, यदि प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाता है तो एलटीसी दावा जब्त हो जाएगा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर। PLEASE NOTE DOWN THE FOLLOWING RULES IN R/O LTC FACILITY: 1. Normally, the advance should be refunded in full if the outward journey is not commenced within 30 days of the grant of advance. Air/ railway/bus tickets should be submitted within 10days of the drawl of the advance and final claim should be submitted within 30 days of the completion of return journey.
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2. जहां कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, यदि प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाता है तो एलटीसी दावा जब्त हो जाएगा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर। PLEASE NOTE DOWN THE FOLLOWING RULES IN R/O LTC FACILITY: 1. Normally, the advance should be refunded in full if the outward journey is not commenced within 30 days of the grant of advance. Air/ railway/bus tickets should be submitted within 10days of the drawl of the advance and final claim should be submitted within 30 days of the completion of return journey. 2. Where no advance is drawn, LTC claim shall stand forfeited, if the claim for reimbursement is not made
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2. जहां कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, यदि प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाता है तो एलटीसी दावा जब्त हो जाएगा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर। PLEASE NOTE DOWN THE FOLLOWING RULES IN R/O LTC FACILITY: 1. Normally, the advance should be refunded in full if the outward journey is not commenced within 30 days of the grant of advance. Air/ railway/bus tickets should be submitted within 10days of the drawl of the advance and final claim should be submitted within 30 days of the completion of return journey.
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2. जहां कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, यदि प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाता है तो एलटीसी दावा जब्त हो जाएगा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर। PLEASE NOTE DOWN THE FOLLOWING RULES IN R/O LTC FACILITY: 1. Normally, the advance should be refunded in full if the outward journey is not commenced within 30 days of the grant of advance. Air/ railway/bus tickets should be submitted within 10days of the drawl of the advance and final claim should be submitted within 30 days of the completion of return journey. 2. Where no advance is drawn, LTC claim shall stand forfeited, if the claim for reimbursement is not made
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2. जहां कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, यदि प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाता है तो एलटीसी दावा जब्त हो जाएगा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर। PLEASE NOTE DOWN THE FOLLOWING RULES IN R/O LTC FACILITY: 1. Normally, the advance should be refunded in full if the outward journey is not commenced within 30 days of the grant of advance. Air/ railway/bus tickets should be submitted within 10days of the drawl of the advance and final claim should be submitted within 30 days of the completion of return journey. 2. Where no advance is drawn, LTC claim shall stand forfeited, if the claim for reimbursement is not made
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2. जहां कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, यदि प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाता है तो एलटीसी दावा जब्त हो जाएगा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर। PLEASE NOTE DOWN THE FOLLOWING RULES IN R/O LTC FACILITY: 1. Normally, the advance should be refunded in full if the outward journey is not commenced within 30 days of the grant of advance. Air/ railway/bus tickets should be submitted within 10days of the drawl of the advance and final claim should be submitted within 30 days of the completion of return journey. 2. Where no advance is drawn, LTC claim shall stand forfeited, if the claim for reimbursement is not made within 3 months of the date of completion of the return journey.
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2. जहां कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, यदि प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाता है तो एलटीसी दावा जब्त हो जाएगा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर। PLEASE NOTE DOWN THE FOLLOWING RULES IN R/O LTC FACILITY: 1. Normally, the advance should be refunded in full if the outward journey is not commenced within 30 days of the grant of advance. Air/ railway/bus tickets should be submitted within 10days of the drawl of the advance and final claim should be submitted within 30 days of the completion of return journey. 2. Where no advance is drawn, LTC claim shall stand forfeited, if the claim for reimbursement is not made
कृपया आर/ओ एलटीसी सुविधा में निम्नलिखित नियमों को नोट करें: 1. आम तौर पर, यदि 30 . के भीतर जावक यात्रा शुरू नहीं की जाती है, तो अग्रिम पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए अग्रिम अनुदान के दिन। हवाई/रेलवे/बस टिकट आहरण के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अग्रिम और अंतिम दावा वापसी यात्रा के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2. जहां कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, यदि प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाता है तो एलटीसी दावा जब्त हो जाएगा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर। PLEASE NOTE DOWN THE FOLLOWING RULES IN R/O LTC FACILITY: 1. Normally, the advance should be refunded in full if the outward journey is not commenced within 30 days of the grant of advance. Air/ railway/bus tickets should be submitted within 10days of the drawl of the advance and final claim should be submitted within 30 days of the completion of return journey. 2. Where no advance is drawn, LTC claim shall stand forfeited, if the claim for reimbursement is not made within 3 months of the date of completion of the return journey.

वचनपत्र / UNDERTAKING

(निम्नलिखित उपक्रम (ओं) यदि लागू हो, प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं)।/ (Following undertaking (s) if applicable, are required to the furnished).

1. मैं, एतद्वारा व	चिन देता हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री जो पूर्णतःमुझ पर निर्भर और सभी स्रोतों
से उसकी / उसकी आय रुपये से 3500/- रुपये प्रति माह से अधि	
	hereby undertake that my son/daughter who is fully dependent on me
and his /her income from all sources does not exceeded Rs. 38	
2. मैं,	चन देता हूं कि मेरे पिता/माता/बहन पूर्णतःमुझ पर निर्भर है/ और
सभी स्रोतों से उसकी/उनकी आय 3500/- रुपये प्रति माह से अ	धिक नहीं है।/ hereby undertake that my father/mother/sister who is
fully dependent on me and his /her income from all sources do	es not exceeded Rs. 3500/- p.m.
	हस्ताक्षर/Signature
	पूरा नाम / FullName
	पद/ Designation
	विभाग/ Department
12. अग्रिम भुगतान की राशि/ AMOUNT OF ADVANCE।	
	ारी जानकारी के अनुसार सत्य तथा सही है। मैं वचन देता हूँ कि अग्रिम
राशि प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर ही जावक यात्रा की टिकट	č "\
	BEST O MY KNOWLEDGE. I UNDERTAKE TO PRODUCE THE
TICKET FOR THE OUTWARD JOURNEY WITHIN TEN DAYS	3 OF RECEIPT OF THE ADVANCE.:
हस्ताक्षर/	Signature :
	नाम/ Name:
	पदनाम/ Designation:
कपया उनके नियोक्ता दारा जारी एचटी/ एनीवेयर दन दंदिया	एलटीसी सुविधा लाभ लेने/ न लेने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
	ling availing /not availing H.T/ Anywhere in India ITC facility

Please attach certificate from his/her employer regarding availing /not availing H.T/ Anywhere in India LTC facility ए) एक तरफा रेल किराया/ बस किराया : हेडक्वाटर से गृहनगर/ लघुतम मार्ग से गंतव्य तक, बी) अधिकार श्रेणी, सी) किलोमीटर में दूरी।

a) Single Rail Fare/Bus Fare: from the Headquarters to Home Town/Place of visit by shortest route. b) Entitled class: c) Distance in Kilometer

छुट्टी यात्रा रियायत योजना Leave Travel Concession Scheme घोषणा/ Declaration

1. 2. 3. 4. 5.	नियुक्ति पदनाम विभागः गृहनगर ए) ग्राम बी) डाव सी) जिल्	ो का नाम : की तिथि : : : : : : : : : : : : : : : : : : :				
6.	मैं एतदृ	द्वारा सत्यनिष्ठा यह घोषणा करता हूँ कि निस्	म्नलिखित पारिवारिक सदस्य	पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रि	ात हैं:	
	क्रमांक	नाम	संबंध	जन्म तिथि	आयु	
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी उत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है।						
			हस्ताक्षर/ Signa	ature		
पूरा नाम / FullName						
पद/ Designation						
			विभाग/ Depa	rtment		
उपरोक्त	क्रम संख	ज्या 06 पर दिया गया आश्रित सदस्य <mark>े</mark>	ों संबंधी विवरण एफडीआ	र संख्या	से	
सत्यापित	ा किया व	गया और सही पाया गया।				

(अ.अ. बिल, मेडिकल अनुभाग)/ (S.O. Bill, Medical Section)